

CIN: L55101DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Tel: 011-23722596-98, Fax: 011-23312990

Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS PERIOD ENDED 31st DECEMBER, 2020

(Rs. in Lakh except earning per share)

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended | | | | | Year ended |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------|
| | | 31.12.2020 Unaudited | 30.09.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | Nine months ended 31.12.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | |
| 1 | Total Income from Operations | 1446.66 | 274.44 | 3379.39 | 1862.21 | 6946.91 | 9753.54 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 136.93 | (830.70) | 805.04 | (1,141.12) | 109.08 | 367.15 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 136.93 | (830.70) | 805.04 | (1,141.12) | 109.08 | 367.15 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 102.47 | (621.63) | 606.79 | (853.93) | 81.20 | 370.90 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 121.50 | (601.71) | 629.41 | (765.49) | 153.24 | 443.11 |
| 6 | Equity Share Capital | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | - | - | - | - | - | 9160.17 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) | 1.90 | (11.51) | 11.24 | (15.81) | 1.50 | 6.87 |
| | 1. Basic: | 1.90 | (11.51) | 11.24 | (15.81) | 1.50 | 6.87 |
| | 2. Diluted: | 1.90 | (11.51) | 11.24 | (15.81) | 1.50 | 6.87 |

NOTES:-

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th February, 2021. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the Quarter and Nine Months period ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months period results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com.

FOR U. P. HOTELS LIMITED

Sd/-

APURV KUMAR RUPAK GUPTA

(Joint Managing Directors)

Place : New Delhi

Date : 10.02.2021

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Off. : Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana

E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiasciences.com

CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, +91 9654746544, Fax: 011-47063601/02

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2020

(Rs. in Lakhs except EPS)

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | | | Year ended |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | |
| 1 | Total Income from operations | 3490.16 | 2,773.71 | 9668.57 | 8,608.02 | 10,725.00 |
| 2 | Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) | 116.46 | 8.37 | 674.86 | 217.23 | 122.60 |
| 3 | Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 116.46 | 8.37 | 674.86 | 217.23 | 122.60 |
| 4 | Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 42.65 | 8.37 | 601.05 | 217.23 | 138.11 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | 42.65 | 7.47 | 601.05 | 214.54 | 136.95 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 1/-each) | 473.13 | 407.94 | 473.13 | 407.94 | 463.54 |
| 7 | Earnings Per Share (Face value of Rs. 1/- each) (Not Annualised) | 0.09 | 0.03 | 1.27 | 1.07 | 0.32 |
| | Basic in Rs. | 0.09 | 0.03 | 1.27 | 1.07 | 0.32 |
| | Diluted in Rs. | 0.09 | 0.02 | 1.27 | 0.74 | 0.28 |

NOTE:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the website of BSE Limited and the website of the company (www.kimiasciences.com).
- The above result was reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors of the Company in their respective meetings held on Thursday, February 11, 2021 and the statutory auditors of the company have carried out limited review of the same.

For KIMIA BIOSCIENCES LTD

(Formerly Laurel Organics Ltd.)

Sd/-

Sameer Goel

Chairman & Managing Director

DIN NO.: 00161786

Place: New Delhi

Date: 11.02.2021

Noida Toll Bridge Company Limited

Regd. Office : Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi – 110 091

Tel: 0120-2516495 Fax : 0120-2516440

CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email : ntbcl@ntbcl.com**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020**

(Rs. in Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | STANDALONE | | | | | | CONSOLIDATED | | | | | |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2020 Unaudited | 30.09.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | 31.12.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | 31.03.2020 Audited | 31.12.2020 Unaudited | 30.09.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | 31.12.2020 Unaudited | 31.12.2019 Unaudited | 31.03.2020 Audited |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I | Total Income from operations | 388.11 | 208.36 | 690.67 | 711.01 | 2,024.76 | 2,936.88 | 389.69 | 208.39 | 694.24 | 712.77 | 2,033.95 | 2,954.22 |
| II | Profit for the period before taxation | (986.40) | (1,140.31) | (752.40) | (3,252.47) | (2,590.62) | (3,105.09) | (973.11) | (1,129.30) | (722.88) | (3,215.36) | (2,542.06) | (3,036.91) |
| III | Profit for the period after tax | (986.40) | (1,140.31) | (752.40) | (3,252.47) | (2,590.62) | (3,105.09) | (973.11) | (1,129.30) | (722.88) | (3,215.36) | (2,542.06) | (3,036.91) |
| IV | Total Other comprehensive Income | 0.42 | 0.48 | 0.05 | 1.26 | 0.15 | 1.43 | 0.01 | (0.09) | (0.49) | 0.01 | (1.45) | 0.35 |
| V | Total Comprehensive Income for the period | (985.98) | (1,139.83) | (752.35) | (3,251.21) | (2,590.47) | (3,103.66) | (973.10) | (1,129.39) | (723.37) | (3,215.35) | (2,543.51) | (3,036.56) |
| VI | Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10) | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 |
| VII | Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,723.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,617.86 |
| VIII | Earning Per Share | | | | | | | | | | | | |
| | Basic | (0.53) | (0.61) | (0.40) | (1.75) | (1.39) | (1.67) | (0.52) | (0.61) | (0.39) | (1.73) | (1.37) | (1.63) |
| | Diluted | (0.53) | (0.61) | (0.40) | (1.75) | (1.39) | (1.67) | (0.52) | (0.61) | (0.39) | (1.73) | (1.37) | (1.63) |

Notes to Financial Results

- The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at a meeting held on February 11, 2021.
- The Company has adopted IND AS 116 "Leases" effective April 1, 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Companies (Indian Accounting Standard), Amendment Rules, 2019, using the modified retrospective method. Accordingly, comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. The effect of this adoption is not material on the profit for the year and earning per share.
- The Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its Judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed) has directed the Company to stop collecting the user fee holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the Noida-Delhi Toll Road has been suspended from October 26, 2016, pursuant to which an appeal has been filed before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said Judgement.
- On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an interim order and, though denying the interim stay, sought assistance of CAG to verify whether the Total Cost of the Project in terms of the Concession Agreement had been recovered or not by the Company. The CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court, which at a hearing held on September 14, 2018 directed that the Report submitted by CAG be kept in a sealed cover.
- The SLP is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified Noida that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the interim order of the Hon'ble Supreme Court of India, constitute, a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since Noida did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to Noida.
- The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and Noida have submitted their claims and counter claims. Further, Noida had filed an application under Section 16 on the maintainability of the arbitration proceedings which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018.
- Noida had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to Noida.
- Noida has also filed an application for directions before Hon'ble Supreme Court seeking stay on the arbitral proceedings. On April 12, 2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on arbitral proceedings. The Company has filed an application before the Hon'ble Supreme Court of India on January 31, 2020, seeking the vacation of Stay on arbitral proceeding directed by the Hon'ble Supreme Court. The matter was taken up for hearing on September 21, 2020, October 05, 2020 and November 18, 2020 on which date it was posted for January 20, 2021, on that day Court directed that it be listed for hearing on March 16, 2021.
- Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying value of the intangible and other assets are not impaired.
- The Company continues to fulfill its obligations as per the Concession Agreement including maintenance of Project Assets.
- The Company has received the assessment order from Income Tax Department on December 27, 2019 u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 for the Assessment Year 2016-17 and 2017-18 wherein a demand amounting Rs. 357 crores and Rs. 383.48 crores has been raised based on the historical dispute with the Tax Department which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority.
- During previous year, the Company has received an order from CIT(A) on April 25, 2018 and pursuant to the CIT(A) order, the AO has also passed consequential orders in respect of AYs 2006-07 to 2014-15, giving effect to the CIT(A)'s appellate orders and has enhanced the tax demand by Rs. 10,893.30 crores. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and at the last hearing on February 6, 2019, the ITAT, based on the NCLAT order dated October 15, 2018, granting a moratorium on all creditors actions against IL&FS as well as of its group companies including NTBCL, adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.
- During November 2018 the CIT(A), Noida, passed a penalty order for A.Y. 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi imposed a penalty amounting to Rs. 10,893.30 crores during December 2018. The Company has filed an appeal, along with a stay application with ITAT on January 11, 2019. The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019, which adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.
- In terms of the affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by New Board along with its amendments. In the said order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018 as the Cut Off date for initiation of resolution process of the Company. Accordingly, the Company has not accrued any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date").
- On September 28, 2018, a writ of demand was served by Noida on the Company for an amount of Rs. 3.69 crores in relation to revenue from advertising on the Noida side of DND Flyway. The Company has requested Noida to keep the writ of demand in abeyance since the matter has been referred to Arbitration by Noida and further no action can be taken against the Company due to the moratorium granted in view of NCLAT order dated October 15, 2018.
- During December 2018 and April 2019, the Company has received an additional demand of Rs. 2.34 crores and Rs. 2.42 crores towards arrears of license fee. The Company has requested Noida to keep demand in abeyance since the matter has been referred to Arbitration by Noida.
- The novel coronavirus (COVID-19) outbreak which was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders to all commercial and industrial establishments and to impose "lock-down" and curfews and preventing inter-state and intra-state travel and requiring offices to be closed.
- As a result of the complete nationwide lockdown initially imposed from March 25, 2020 for 21 days and extended twice till 31st May 2020 and the gradual re-opening of limited activities in a calibrated manner in areas outside containment zones, there is an impact on the Revenue from operations during the Nine months ended December 31, 2020 (Space for Advertisement and the Rental Income from Office Space) owing to the restrictions and consequential waivers. Although the Company continues to exhibit resilience during these uncertain times, the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks associated with COVID-19. The Company will however continue to closely monitor any changes to the future economic conditions that may have impact on its business and financial position.
- The Company had only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable.
- Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Place : Mumbai

Date : February 11, 2021

For and on behalf of the Board of Directors

Director

METRO COMMERCIAL COMPANY LTD

CIN: L51109AS1985PLC002401

Regd. Office: B. R. Chandak Market, Marwari Patti, Ward No. 6, Jorhat, Guwahati-785001, (Assam)

Email: info.metrocommercialcompanylimited@gmail.com, Website: www.metrocommercialcompany.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2020

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended | | |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) |
| 1 | Total income from operations (net) | 1.73 | 4.41 | 6.78 |
| 2 | Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) | 2.90 | 8.74 | 6.52 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) | 2.90 | 8.74 | 6.52 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) | 2.90 | 8.74 | 6.52 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 2.90 | 8.74 | 6.52 |
| 6 | Equity Share Capital | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not annualised) | - | - | - |
| | Basic: | (0.12) | (0.43) | 0.03 |
| | Diluted: | (0.12) | (0.43) | 0.03 |

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity www.namokartade.com.
- Financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 11, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Vishal Kumar Sharma

Whole-Time Director

DIN: 07310503

Date : 11.02.2021

Place : Guwahati

ORACLE CREDIT LIMITED

Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016

CIN: L65910DL1991PLC043281

E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.inWebsite: www.oraclecredit.co.in Phone: 011- 26167775**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2020**

(Rs. in lacs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended | | |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) |
| 1. | Total Income from Operations | 8.86 | 25.80 | 6.38 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 5.41 | 16.54 | 2.54 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 5.41 | 16.54 | 2.54 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.05 | 12.38 | 1.68 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 4.05 | 12.38 | 1.68 |
| 6. | Equity Share Capital | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
| 7. | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | |
| | 1. Basic | Rs. 0.073 | Rs. 0.223 | Rs. 0.030 |
| | 2. Diluted | Rs. 0.073 | Rs. 0.223 | Rs. 0.030 |

Notes:

- The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.oraclecredit.co.in.
- The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 11-Feb-21.

By the Order of the Board

For Oracle Credit Limited

Sd/-

Ashok Kumar Jain

Managing Director

DIN-00091646

Place: New Delhi

Date: 11.02.2021

Reliance Asset Reconstruction Co. Ltd.

Branch Office : A-13/1, 6 Floor, Synergy Tower, Sector-62, Noida (U.P) 201309

POSSESSION NOTICE (for immovable properties) See Rule 8(1)

Whereas, the Authorised Officer of Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as Reliance ARC 012 Trust vide Agreement dated 31.07.2015 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 20

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्या: टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440

CIN. No: L45101DL1996PLC315772; ईमेल: ntbc@ntbcl.com,

वेबसाइट: www.ntbcl.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही का अनकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में)

| क्रम सं. | विवरण | स्टैंडएलॉन | | | | | | समेकित | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | समाप्त तिमाही | | | समाप्त नौमाही | | | समाप्त तिमाही | | | समाप्त नौमाही | | |
| | | 31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 |
| | | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| (i) | प्रचालनों से कुल आय | 388.11 | 208.36 | 690.67 | 711.01 | 2,024.76 | 2,936.88 | 389.69 | 208.39 | 694.24 | 712.77 | 2,033.95 | 2,954.22 |
| (ii) | कराधान के पूर्व अवधि हेतु लाभ | (986.40) | (1,140.31) | (752.40) | (3,252.47) | (2,590.62) | (3,105.09) | (973.11) | (1,129.30) | (722.88) | (3,215.36) | (2,542.06) | (3,036.91) |
| (iii) | कर परचात अवधि हेतु लाभ | (986.40) | (1,140.31) | (752.40) | (3,252.47) | (2,590.62) | (3,105.09) | (973.11) | (1,129.30) | (722.88) | (3,215.36) | (2,542.06) | (3,036.91) |
| (iv) | कुल अन्य व्यापक आय | 0.42 | 0.48 | 0.05 | 1.26 | 0.15 | 1.43 | 0.01 | (0.09) | (0.49) | 0.01 | (1.45) | 0.35 |
| (v) | अवधि हेतु कुल व्यापक आय | (985.98) | (1,139.83) | (752.35) | (3,251.21) | (2,590.47) | (3,103.66) | (973.10) | (1,129.39) | (723.37) | (3,215.35) | (2,543.51) | (3,036.56) |
| (vi) | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य) | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 | 18,619.50 |
| (vii) | आरक्षित (गत वर्ष के तुलना पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | 16,723.83 | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | 16,617.86 |
| (viii) | आय प्रति शेयर | | | | | | | | | | | | |
| | बेसिक | (0.53) | (0.61) | (0.40) | (1.75) | (1.39) | (1.67) | (0.52) | (0.61) | (0.39) | (1.73) | (1.37) | (1.63) |
| | डाइल्यूटेड | (0.53) | (0.61) | (0.40) | (1.75) | (1.39) | (1.67) | (0.52) | (0.61) | (0.39) | (1.73) | (1.37) | (1.63) |

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम :

- उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमीटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 11 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।
- कम्पनी ने संशोधित ट्रेडिंस्मिक्टिव पद्धति का उपयोग करते हुए कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एस 116 "लीजेज" अपनाई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े समायोजित नहीं किये गये हैं। इसे अपनाने का अवधि के लिये लाभ तथा आय प्रति शेयर पर कोई भीतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- जनहित लिटिगेशन (रियायत अनुबंध की वैधता को चुनौती देने तथा रियायत अनुबंध को रद्द कराने के लिये) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कम्पनी को शुल्क की लेवी तथा संग्रहण से संबंधित दो विशिष्ट प्राधानों को गैर-प्रचालनात्मक ठहराते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था लेकिन रियायत अनुबंध को निरस्त करने से इंकार कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप नोएडा-दिल्ली टोल रोड के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलंबित रहा है जिसके लिये उक्त फैसले पर अंतरिम स्थगन लगाने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल किया गया है। 11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी को सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये।
- यह एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिये अभी भी लम्बित है। कम्पनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व था। चूंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक सूचना भेजी है।
- विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा कम्पनी एवं नोएडा दोनों ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। फिर, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मेन्टनेबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है लिये आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे का निर्देश दिया। कम्पनी 31 जनवरी, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे को हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दाखिल की। यह मामला सुनवाई के लिए 21 सितम्बर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020 तथा 18 नवम्बर, 2020 को सुनवाई के लिए लिया गया था जिस तिथि पर इसे 20 जनवरी, 2021 को पोस्ट किया गया, उस तिथि पर न्यायालय ने इसे सुनवाई हेतु 16 मार्च, 2021 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
- विधिक ओपिनियन के आधार पर तथा कंसेशन एग्रीमेंट (क्षतिपूर्ति एवं अन्य रिकॉर्स से सम्बंधित) के प्रावधानों के आधार पर कम्पनी आश्वस्त है कि अमूर्त तथा अन्य अस्तित्वों का निहित मूल्य दुर्बल नहीं हैं।
- कम्पनी परियोजना अस्तित्वों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।
- कम्पनी को निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत 27 दिसम्बर, 2019 को आयकर विभाग से निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित रु. 357 करोड़ तथा रु. 383.48 करोड़ की राशि को मांग की गयी है जो कि पश्चिम में वसूली जाने वाली निर्दिष्ट आयों के एरियर, भूमि के मूल्यांकन तथा अन्य वसुलियों के अतिरिक्त है। कम्पनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकरण के पास एक अपील दाखिल की है।
- गत वर्ष के दौरान कम्पनी को 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी(ए) से एक आदेश प्राप्त हुआ और सीआईटी(ए) आदेश के अनुसार एओ ने सीआईटी(ए) के अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते हुए निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के परिप्रेक्ष्य में अनुगामी आदेश भी पारित कर दिये हैं और कर की मांग रु. 10,893.30 करोड़ तक बढ़ा दी है। मांग की वृद्धि प्राथमिक तौर पर भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कम्पनी ने स्थगन आवेदन के साथ एक अपील आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पास दाखिल किया है। मामले को सुनवाई, आईटीएटी द्वारा 19 दिसम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 को की गयी और सुनवाई के अन्त में 6 फरवरी, 2019 को आईटीएटी ने एनसीएलएटी आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईएलएण्डएक्सएस तथा एनटीबीसीएल सहित इसकी युग कम्पनियों के विरुद्ध सभी लेनदारों को मोरेटोरियम स्वीकृत करते हुए यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश सहित मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।
- नवम्बर, 2018 के दौरान सीआईटी (ए), नोएडा ने ए.वाई. 2006-07 से 2014-15 के लिये दंड आदेश पारित किया तथा उसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 के दौरान रु. 10,893.30 की राशि का दंड लगाया। कम्पनी ने 11 जनवरी, 2019 को आईटीएटी में एक अपील दाखिल की है। इस मामले पर 29 मार्च, 2019 तथा 03 मई, 2019 को आईटीएटी द्वारा सुनवाई की गई जिसे यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश के साथ अनिश्चित काल के लिये मामले को स्थगित कर दिया।
- कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि ("कट-ऑफ तिथि") प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान प्रेमवर्क को मंजूरी दी। कथित आदेश में माननीय एनसीएलएटी ने कम्पनी की समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि के रूप में मंजूरी भी दी। तदनुसार कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 ("कट-ऑफ तिथि") से प्रभावी अपने समस्त ऋण तथा धारियों पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त किया है।
- 28 सितम्बर, 2018 को नोएडा द्वारा कम्पनी को मांग का एक रिट सर्व किया गया क्योंकि डीएनटी एफआई के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कम्पनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग उठाई गई। कम्पनी ने नोएडा से मांग के इस रिट को आस्थगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले को विवाचन में दिया गया है तथा इतना ही नहीं एनसीएलएटी आदेश तिथि 15 अक्टूबर, 2018 को देखते हुए स्वीकृत मोरेटोरियम के कारण कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
- दिसम्बर, 2018 तथा अप्रैल, 2019 के दौरान कम्पनी ने लाइसेंस शुल्क के एरियर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा रु. 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग को आस्थगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस मामले को नोएडा द्वारा आवर्द्धेशन में भेजा गया है।
- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा "लॉक-डाउन" एवं कर्फ्यू लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपाय/दिशा-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही हैं।
- प्रारम्भ में 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए लगाये गये राष्ट्रीय पूर्ण लॉकडाउन तथा दुबारा 31 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने के कारण और कंटेनमेंट जॉन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से सीमित गतिविधियों को धीरे-धीरे पुनः खोलने के कारण प्रतिबन्ध एवं परिणामी प्रभावों से 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त नौमाही के दौरान प्रचालनों से आय (विज्ञापन हेतु स्पेस तथा कार्यालय स्थल से भाड़े के रूप में आय) पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कम्पनी इन अनिश्चित परिस्थितियों से उबरने का प्रयास कर रही है, प्रबन्धन का विश्वास है कि कम्पनी के ऐतिहासिक निष्पादन तथा तरलता को देखते हुए कम्पनी कोविड-19 से जुड़े जोखिमों को कम करने में समर्थ हो सकेगी। हालांकि कम्पनी उन भावी आर्थिक स्थितियों में किसी परिवर्तन पर लगातार निगरानी रख रही है जो इसके व्यापार तथा वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकती है।
- कम्पनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।
- जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समूचीकृत/ पुनर्गणित किए गए हैं।
- उपरोक्त सेवा (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

स्थान : नोएडा

तिथि : 11 फरवरी, 2021

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

निदेशक